

हमारे उपलब्ध उत्पाद और सेवाएँ


- | | | |
|---|--|--|
|  सेविंग अकाउंट ओपनिंग |  आईपीएस बैलेंस इन्वरी (ON Us) |  एस.एच.जी. मान्यता प्राप्त लेनदेन |
|  आईपीएस कैश डिपॉजिट (ON Us) |  आईपीएस बैलेंस एन्कायरी (ON Us) |  भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) |
|  आईपीएस नकद जमा (ON Us) |  रूपे बैलेंस एन्कायरी (ON Us) |  नई चेकबुक के लिए अनुरोध |
|  आईपीएस नकद निकासी (Off us) |  रूपे फंड ट्रांसफर (ON Us) |  चेक भुगतान रोकना |
|  आईपीएस नकद निकासी (Off us) |  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |  चेक स्टेटस संबंधी जानकारी |
|  रूपे कार्ड आधारित नकद जमा (ON Us) |  प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना |  एसएमएस अलर्ट के लिए अनुरोध |
|  रूपे कार्ड आधारित नकद जमा (Off us) |  अटल पेन्शन योजना |  ई-मेल स्टेटमेंट के लिए अनुरोध |
|  आईपीएस फंड ट्रांसफर (ON Us) |  मिनी स्टेटमेंट (ON Us) |  ऋण खाते में वसूली और नकद ऋण खाते में वसूली |
|  आईपीएस फंड ट्रांसफर (Off us) | | |



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra










भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक


Technologies Pvt. Ltd.

Corporate Business Correspondent
www.nictpl.com

उपलब्ध उत्पाद और सेवाएं

-  बचत खाता खोलना
-  प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
-  एईपीएस नकद जमा (ऑन अस)
-  प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
-  एईपीएस नकद जमा (ऑफ अस)
-  अटल पेंशन योजना
-  एईपीएस नकद आहरण (ऑन अस)
-  लघु विवरण (ऑन अस)
-  एईपीएस नकद आहरण (ऑफ अस)
-  एसएचजी ड्युएल ऑथेन्टिकेशन संव्यवहार
-  रुपये कार्ड आधारित नकद जमा (ऑन अस)
-  भारत बिल भुगतान प्रणाली
-  रुपये कार्ड आधारित नकद जमा (ऑफ अस)
-  नई चेक बुक के लिए अनुरोध
-  एईपीएस निधि अंतरण (ऑन अस)
-  चेक भुगतान रोकने के लिए अनुरोध
-  एईपीएस निधि अंतरण (ऑफ अस)
-  चेक स्थिती संबंधी पूछताछ
-  एईपीएस शेष पूछताछ (ऑन अस)
-  एसएमएस अलर्ट के लिए अनुरोध
-  एईपीएस शेष पूछताछ (ऑफ अस)
-  ई-मेल स्टेटमेंट के लिए अनुरोध
-  रुपये शेष पूछताछ (ऑन अस)
-  ऋण और नकद ऋण खाते में वसूली
-  रुपये निधि अंतरण (ऑन अस)



www.bankofmaharashtra.in | Toll Free No.: 1800 233 4526

Follow us @mahabank      

ग्राहक सेवा केंद्र में ग्राहक क्या करें और क्या न करें

ग्राहक सेवा केंद्र पर व्यवसाय प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते समय ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए ।

- ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंक लेनदेन के बाद कम्प्यूटरीकृत पावती प्राप्त की जानी चाहिए ।
- जब भी आवश्यकता हो मिनी स्टेटमेंट मांगें ।
- ग्राहक सेवा केंद्र से बाहर निकलते समय हमेशा नकदी की जांच कर लें ।
- सुनिश्चित करें कि आपका लेनदेन कम्प्यूटरीकृत पावती में उल्लेखित अनुसार किया गया है ।
- नामांकन नाम पंजीकरण या नामांकित व्यक्ति को संबंधित शाखा में जाना आवश्यक है ।
- शिकायत दर्ज करने या प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव देने के लिए अपनी सुविधानुसार नजदिकी शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ ।

ग्राहक सेवा केंद्र पर व्यवसाय प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करते समय ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

- सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि को कोई शुल्क न दें ।
- इच्छित लेनदेन के अलावा किसी अन्य लेनदेन के लिए अपना फिंगरप्रिंट प्रदान न करें ।
- कोई भी लेन-देन लंबित नहीं रहना चाहिए । यदि कोई लेन-देन अधूरा रह जाता है तो ऐसे लेन-देन का निपटारा बैंक से तुरंत करा लेना चाहिए ।
- एटीएम कार्ड / रुपये कार्ड नंबर / बैंकिंग पिन आदि जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए और किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए ।
- भुगतान लेनदेन पूरा करने से पहले ग्राहक सेवा केंद्र छोड़ने में जल्दबाजी न करें ।





बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



सुझाव या शिकायत के लिए संपर्क करें

सी.एस. इंचार्ज :, संपर्क नं.:

प्रथम संपर्क:

ब्रांच मैनेजर: ब्रांच

लिंक ब्रांच पता:, संपर्क नं.:

द्वितीय संपर्क:

झोनल मैनेजर: झोन:

संपर्क नं.:

सुझाव या शिकायत के लिए संपर्क करें

सी.एस. प्रभारी :

संपर्क क्रमांक :

पहला परिवर्धन :

शाखा प्रबंधक : शाखा:

लिंक शाखा का पता :

संपर्क क्रमांक :

दुसरा परिवर्धन :

अंचल प्रबंधक : अंचल:

संपर्क क्रमांक :



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



Corporate Business Correspondent
www.nictpl.com



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



CUSTOMER SERVICE POINT

ग्राहक सेवा केंद्र

Place Name:

स्थान का नाम :



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

सप्ताह के सभी दिन
सुबह 8:00 से रात 8.00

All Day's of Week
8:00 AM to 8:00 PM



ग्राहक सेवा केंद्र पर लेन-देन की सीमा

क्रं	लेन-देन के प्रकार	ऑन अस/ऑफ अस	राशि सीमा (रु. में)
1	नकद निकासी	ऑन अस	20,000/-
2	नकद निकासी	ऑफ अस	10,000/-
3	नकद जमा	ऑन अस	49,999/-
4	नकद जमा	ऑफ अस	10,000/-
5	धन हस्तांतरण	ऑन अस	20,000/-
6	धन हस्तांतरण	ऑफ अस	10,000/-



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



Corporate Business Correspondent

www.nicttpl.com

www.bankofmaharashtra.in | Toll Free No.: 1800 233 4526 | Follow us @mahabank

